

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जनवरी 2010—पौष 15, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-47.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, डबरा जिला-ग्वालियर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती सत्यप्रकाशी परसेड़िया
		पार्षद	1	एक	श्रीमती सकुन्तला देवी/गोपाल सिंह
		पार्षद	2	दो	श्रीमती रामवती/खुमान सिंह कुशवाह
		पार्षद	3	तीन	श्री महाराज सिंह राजौरिया
		पार्षद	4	चार	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
		पार्षद	5	पांच	श्री देवेन्द्र गंधी
		पार्षद	6	छः	श्री शिवकली-राधेश्याम मोदी
		पार्षद	7	सात	श्री अनिल जायसवाल (अन्नी)
		पार्षद	8	आठ	श्री संतोष तोमर (बल्लू)
		पार्षद	9	नौ	श्री रामहेत जाटव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	श्रीमती सुमित्रा
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री सौरभ सिंह
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती बवली खटीक/परमानन्द
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती विमलेश पचौरिया
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती रामबाई शिवहरे
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री राजेन्द्र अग्रवाल (छेनू)
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती कामना/वीरेन्द्र सिंह
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती नीरू/अनिल टाटा
		पार्षद	18	अठारह	श्री मुकेश सोनी
		पार्षद	19	उन्नीस	श्री रावमनोहर सिंह (बबली)
		पार्षद	20	बीस	श्री अर्जुनदास शीतलानी
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती रेणु/राजेन्द्र सिंह
		पार्षद	22	बाईस	श्री राजेन्द्र बेरिया
		पार्षद	23	तेईस	श्रीमती सावित्री देवी कुशवाह
		पार्षद	24	चौबीस	श्रीमती मुन्नी देवी पचौरी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-48.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बिलौआ, जिला-ग्वालियर.	अध्यक्ष	-	-	लक्ष्मी चौरसिया
		पार्षद	1	एक	आराधना महेन्द्र शर्मा
		पार्षद	2	दो	बैकुण्ठीबाई
		पार्षद	3	तीन	राम अवतार सिंह मिलन
		पार्षद	4	चार	मंजू चौरसिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	5	पांच	संजीव कुमार सोनी
		पार्षद	6	छः	विजयलक्ष्मी चौरसिया
		पार्षद	7	सात	चन्द्रप्रकाश यादव
		पार्षद	8	आठ	पुष्पा दिनेश
		पार्षद	9	नौ	शशी
		पार्षद	10	दस	हरिओम चौरसिया
		पार्षद	11	ग्यारह	प्रेमाबाई-वारिका
		पार्षद	12	बारह	जगदीश
		पार्षद	13	तेरह	मंजू शर्मा
		पार्षद	14	चौदह	देवदत्त शर्मा
		पार्षद	15	पन्द्रह	रामप्रकाश बघेल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-49.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, आंतरी, जिला-ग्वालियर,	अध्यक्ष	-	-	कमलेश/पूरनसिंह
		पार्षद	1	एक	बृजेश कुमार / छिद्दीलाल
		पार्षद	2	दो	सुरेश / श्यामलाल
		पार्षद	3	तीन	रामसेवक / छत्रपाल
		पार्षद	4	चार	कमलादेवी / सोवरनसिंह
		पार्षद	5	पांच	सिकन्दरखॉ / गफूर खॉ
		पार्षद	6	छः	पूनम / छविराम बघेल
		पार्षद	7	सात	सहोद्राबाई / घनश्याम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	8	आठ	सकीना बेगम / इब्राहिम
		पार्षद	9	नौ	आकिल / हमीद
		पार्षद	10	दस	सुनीता / सुनील
		पार्षद	11	ग्यारह	सुमन / नरेश
		पार्षद	12	बारह	कमलेश / महेश
		पार्षद	13	तेरह	गिरिजाबाई / नरेन्द्रसिंह
		पार्षद	14	चौदह	मोहनसिंह / सुन्दरलाल
		पार्षद	15	पन्द्रह	रेनु / वीरसिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-50.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पिछोर जिला-ग्वालियर.	अध्यक्ष	-	-	बालाराम बाथम
		पार्षद	1	एक	भगवानसिंह पुत्र नत्थूराम
		पार्षद	2	दो	लक्ष्मीबाई पटसारिया
		पार्षद	3	तीन	रेखा पत्नि लखन कुशवाह
		पार्षद	4	चार	सुमन देवी
		पार्षद	5	पांच	राधेश्याम पुत्र श्री ओछाराम
		पार्षद	6	छः	हंसमुखी-मोहनबाबू पाण्डेय
		पार्षद	7	सात	शहिस्ता बेगम पत्नि इमरान खॉ
		पार्षद	8	आठ	सुरेन्द्र शर्मा (गुडडु)
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती भगवती
		पार्षद	10	दस	श्री निशाद खॉ पुत्र हसन खॉ
		पार्षद	11	ग्यारह	अब्दुल इकबाल खॉ
		पार्षद	12	बारह	श्री सत्तार शाह पुत्र राजअली शाह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	13	तेरह	चुल्लू (मधुसुहन)
		पार्षद	14	चौदह	चन्द्रादेवी श्रीलाल
		पार्षद	15	पन्द्रह	विद्यादेवी राव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-51.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, भितरवार, जिला-ग्वालियर.	अध्यक्ष	-	-	सतीश मधैया "क्रान्तीकारी"
		पार्षद	1	एक	श्रीमती शकुन्तला बाई लखनसिंह
		पार्षद	2	दो	गजब सिंह रावत
		पार्षद	3	तीन	भगवान देवी
		पार्षद	4	चार	कैलाश खटीक
		पार्षद	5	पांच	रामवती जगनू जाटव
		पार्षद	6	छः	दामोदर जैन
		पार्षद	7	सात	शशी मोहन मोदी
		पार्षद	8	आठ	दीपक मोदी
		पार्षद	9	नौ	कृष्णा अजमेर सिंह मोदी
		पार्षद	10	दस	रघुवीर सिंह यादव
		पार्षद	11	ग्यारह	अनीता रजक
		पार्षद	12	बारह	रणवीर सिंह किरार
		पार्षद	13	तेरह	रामविलासी सुरेन्द्र
		पार्षद	14	चौदह	ममता गोस्वामी
		पार्षद	15	पन्द्रह	मोहन सिंह प्रजापति

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-52.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत, पंधाना, जिला-खण्डवा.	अध्यक्ष	-	-	डॉ. प्रफुल्ल कुमार जैन
		पार्षद	1	एक	श्री शाकीर खां गफ्फार खां
		पार्षद	2	दो	श्रीमती उमा संतोष राठौर
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती पुष्पा दिनेश मामा जायसवाल
		पार्षद	4	चार	शबाना अयुब अली
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती लताबाई अनिल चौधरी
		पार्षद	6	छः	श्री शेख फारुख
		पार्षद	7	सात	श्री वकील खां
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती जैनबी लियाकत खां
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती सीमा राधेश्याम महाजन
		पार्षद	10	दस	दिलिप कुमार राठौर
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती बसंती जीजी
		पार्षद	12	बारह	श्री सुन्दरसिंह सावनेर
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती मीनाक्षी जितेन्द्र कुशवाह
		पार्षद	14	चौदह	श्री आशाराम शोभाराम
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री प्रकाश ताराचन्द

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-53.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत, मून्दी जिला-खण्डवा.	अध्यक्ष	-	-	आशाबाई छगनलाल जैन
		पार्षद	1	एक	गीताबाई सोहनलाल उर्फ मोहनलाल राठौर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	गोपीबाई रामाजी गुर्जर
		पार्षद	3	तीन	खातून बी W/o अ. गनी तेली
		पार्षद	4	चार	बानो बी (चाची)
		पार्षद	5	पांच	शान्ताबाई रामरतन
		पार्षद	6	छः	सदन पिता माधव मराठे (सद्दू)
		पार्षद	7	सात	जितेन्द्र राठौर 'भाई'
		पार्षद	8	आठ	मोतीराम करसन कोठारे
		पार्षद	9	नौ	(गोलू) अनिल राठौर
		पार्षद	10	दस	उर्मिलाबाई सुरेशचन्द्र राठौर
		पार्षद	11	ग्यारह	कलावती हरिलाल कानूगो
		पार्षद	12	बारह	हीरालाल चंदर
		पार्षद	13	तेरह	मेहताबसिंह गणपतसिंह दसौंदी
		पार्षद	14	चौदह	गोदावरी भगवान मंडलोई
		पार्षद	15	पन्द्रह	राधेश्याम बाबूलाल गुर्जर (राधु)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-54.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, गढ़ाकोटा, जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति यशोदा महेश कोरी
		पार्षद	1	एक	श्री निशार पिता याकूब खान
		पार्षद	2	दो	बसंत कोरी
		पार्षद	3	तीन	श्रीमति लक्ष्मी पति रूपेश कोरी
		पार्षद	4	चार	श्रीमती शीमा/शिवराम अहिरवार
		पार्षद	5	पांच	विजयसिंह चौहान
		पार्षद	6	छः	श्री राजेन्द्र (पप्पू) पिता नंदराम गुप्ता
		पार्षद	7	सात	श्रीमति हेमलता चौरसिया
		पार्षद	8	आठ	श्री महेश सिंह (सुल्टू) पिता जगतसिंह ठाकुर
		पार्षद	9	नौ	श्री मनोज (डब्बू) पिता देवेन्द्र तिवारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	श्रीमति सीमारानी साहू
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति किरण जैन
		पार्षद	12	बारह	उमेश मेहरा (बंटी)
		पार्षद	13	तेरह	शेख सगीर (राजू चच्चा)
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति सविता धनप्रसाद भाटिया
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति उत्तरा गोविन्द पटैल
		पार्षद	16	सोलह	रसीद मुहम्मद (राजू)
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती फूलवती पुरुषोत्तम यादव
		पार्षद	18	अठारह	माया/विपिन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-55.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद् देवरी, जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति रेखारानी/दिलीप कुमार (शोभा) नेमा
		पार्षद	1	एक	श्री नईम उद्दीन
		पार्षद	2	दो	श्रीमती द्रोपती/प्रकाश अहिरवार
		पार्षद	3	तीन	श्री राजकुमार (राजू) वृजपुरिया
		पार्षद	4	चार	श्री चक्रेश कुमार जैन
		पार्षद	5	पांच	श्रीमति सुमन/उमाकांत मिश्रा
		पार्षद	6	छः	श्रीमति माया प्रजापति
		पार्षद	7	सात	श्री गंगाराम अहिरवार
		पार्षद	8	आठ	श्री संजय विश्वकर्मा
		पार्षद	9	नौ	श्री दिलीप चौरसिया
		पार्षद	10	दस	श्रीमती अभिलाषा/राकेश चौरसिया
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति श्यामरानी पलिया
		पार्षद	12	बारह	श्रीमति सुषमा/वीरेन्द्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति राधारानी/भुजबल
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति सीताबाई/सत्यनारायण पटैल
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री अनन्तराम बाबूलाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-56.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्-बीना, जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति पार्वती धरमू राय
		पार्षद	1	एक	पूरनलाल अहिरवार
		पार्षद	2	दो	विष्णुप्रसाद तिवारी
		पार्षद	3	तीन	श्रीमति अनीता सुरेन्द्र सिंह ठाकुर
		पार्षद	4	चार	श्रीमति उमा नामदेव
		पार्षद	5	पांच	सीमा श्रीराम साहू
		पार्षद	6	छः	रमाकांत (गोटू) बिलागैया
		पार्षद	7	सात	श्रीमति करूणा अजय ठाकुर
		पार्षद	8	आठ	बलराम राय
		पार्षद	9	नौ	श्रीमति सरोज अशोक मिश्रा
		पार्षद	10	दस	राजा यादव
		पार्षद	11	ग्यारह	पं. शशी मोहन तिवारी
		पार्षद	12	बारह	श्रीमति मीना रमाकांत बिलगैया
		पार्षद	13	तेरह	प्रशांत चौबे "पिब्बिन"
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति भागवती पत्नि खुशाल यादव
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति शशि हरीराम अहिरवार
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमति ललतेश चंदन
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमति विमला जगदीश शर्मा
		पार्षद	18	अठारह	प्रदीप राय
		पार्षद	19	उन्नीस	गिरजाबाई जगदीश खटीक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	20	बीस	ईश्वर दुबे
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमति जयश्री अहिरवार
		पार्षद	22	बाईस	दिनेश दुर्गाप्रसाद
		पार्षद	23	तेईस	पुष्पेन्द्र कुमार सेन
		पार्षद	24	चौबीस	सुनील सेन
		पार्षद	25	पच्चीस	अवन्तीबाई रैकवार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-57.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्-खुरई, जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	सहोद्राबाई "कमलेश"
		पार्षद	1	एक	सतीश कुमार जैन
		पार्षद	2	दो	क्षमा अरविन्दसिंह (गोदू वाले)
		पार्षद	3	तीन	श्रीमति ज्ञानबाई कमल कुर्मी
		पार्षद	4	चार	अजय सोहित
		पार्षद	5	पांच	मालती राय
		पार्षद	6	छः	विशाखा बलराम
		पार्षद	7	सात	अजीत सिंह (नीटू)
		पार्षद	8	आठ	कुसुमदेवी जोशी (लालू)
		पार्षद	9	नौ	अहिरवार रंजना देवी प्रहलाद
		पार्षद	10	दस	देशराजसिंह/नाथुराम यादव
		पार्षद	11	ग्यारह	साबिया बेगम
		पार्षद	12	बारह	युनिस खॉ
		पार्षद	13	तेरह	चन्द्रप्रकाश भगवानदास चौरसिया
		पार्षद	14	चौदह	रमाशंकर नेमा
		पार्षद	15	पन्द्रह	सुनीता राजेन्द्र कुमार
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमति कीर्ति रविन्द्र चौरसिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	17	सत्रह	मनोज रजक
		पार्षद	18	अठारह	सुभाष सिंह
		पार्षद	19	उन्नीस	दीपक बागोले
		पार्षद	20	बीस	बाबूसींग पटैल (कुर्मी)
		पार्षद	21	इक्कीस	जगदीश प्रसाद अहिरवार
		पार्षद	22	बाईस	आजादरानी सीताराम
		पार्षद	23	तेईस	कमला पति धनीराम अहिरवार
		पार्षद	24	चौबीस	छाया/रांजेन्द्रसिंह यादव (कल्लू यादव)
		पार्षद	25	पच्चीस	रामसखी हरभजन चंदेल
		पार्षद	26	छब्बीस	किरण प्रसाद चंदेल
		पार्षद	27	सत्ताईस	अमित चौबे पिता पं. सूर्यकिरण चौबे

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-58.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्-रहली, जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	पं. श्रीर सौरभ हजारी
		पार्षद	1	एक	लक्ष्मी प्रसाद "लाड़ले";
		पार्षद	2	दो	श्रीमति नम्रता W/o बृजेश कुमार पटैरिया
		पार्षद	3	तीन	श्रीमति साधना/सुरेश पटैल
		पार्षद	4	चार	मनोज जैन "भूरे"
		पार्षद	5	पांच	श्रीमति रुपाली वाल्मीक W/o दीपक वाल्मीक
		पार्षद	6	छः	पुष्पा गोविन्द प्रसाद सोनी
		पार्षद	7	सात	श्री देवराज सोनी
		पार्षद	8	आठ	श्री महेश साहू
		पार्षद	9	नौ	सुरेश राठौर
		पार्षद	10	दस	प्रेमनारायण पटैल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति लक्ष्मीबाई कान्तिलाल
		पार्षद	12	बारह	चंदा गुलाब खटीक
		पार्षद	13	तेरह	जुलेखा बी इसरार
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति ऊषा, कुंजाबिहारी
		पार्षद	15	पन्द्रह	हरिओम (रिन्कू) तिवारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-59.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बण्डा, जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	श्री वैभवराज कुकरेले "अन्तू"
		पार्षद	1	एक	श्रीमति मीना राजेश जैन "महावीर"
		पार्षद	2	दो	श्री अशोक पापेट
		पार्षद	3	तीन	श्रीमति तारा बी
		पार्षद	4	चार	मनमा बाई उर्फ मनभा बाई
		पार्षद	5	पांच	श्री जय कुमार अहिरवार के. के.
		पार्षद	6	छः	श्रीमति सुशीला कासीराम यादव
		पार्षद	7	सात	श्री अजय जैन "अन्तू भैया"
		पार्षद	8	आठ	श्री रफीक सिद्धकी "रफ्फू"
		पार्षद	9	नौ	चौ. कोमलचंद
		पार्षद	10	दस	श्रीमति शीला कमलेश अग्निहोत्री
		पार्षद	11	ग्यारह	अहीर देव कुमार यादव
		पार्षद	12	बारह	श्रीमति विमला किसन सेन
		पार्षद	13	तेरह	श्री हरिराम पटेल "हरी भैया"
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति दुर्गा अनुरुद्ध सिंह "पन्ना"
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति मायाबाई लल्लूभाई अहिरवार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-60.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, शाहगढ़ जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	चंदा बाई संतोष
		पार्षद	1	एक	झनकरानी पति भागीरथ यादव
		पार्षद	2	दो	पं. रामचरण दुबे
		पार्षद	3	तीन	मुन्नालाल आदिवासी
		पार्षद	4	चार	सुहागरानी भागीरथ साहू
		पार्षद	5	पांच	शिवचरण (नन्नु साहू)
		पार्षद	6	छः	रेखा शंभूदयाल तिवारी
		पार्षद	7	सात	कमला देवी जैन
		पार्षद	8	आठ	मुकेश राजपूत
		पार्षद	9	नौ	शतरूपा उर्फ सत्तो हेतराम खटीक
		पार्षद	10	दस	विन्नीबाई कच्छेदी अहिरवार
		पार्षद	11	ग्यारह	तुलसीराम उर्फ बंदी आठिया
		पार्षद	12	बारह	श्रीमति राधा सत्यप्रकाश दुबे
		पार्षद	13	तेरह	सुशील गुप्ता
		पार्षद	14	चौदह	इकबाल खॉ (मुन्ना ठेकेदार)
		पार्षद	15	पन्द्रह	ऊषा देवी (गुड्डूराजा)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-61.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, राहतगढ़, जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति उमा/रामकुमार (पप्पू)
		पार्षद	1	एक	प्रकाश / बट्टीप्रसाद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	रेखा / सुबोध साहू
		पार्षद	3	तीन	नरेन्द्र (लल्लाराय)
		पार्षद	4	चार	सियारानी / पूरनलाल
		पार्षद	5	पांच	नईम
		पार्षद	6	छः	रामेश्वर नेमा (रम्मू)
		पार्षद	7	सात	सीताराम विश्वकर्मा (सित्तू)
		पार्षद	8	आठ	पूरनदास / खुशालदास
		पार्षद	9	नौ	बानो बी / रईस
		पार्षद	10	दस	पीरवानो / अनीस
		पार्षद	11	ग्यारह	चांदमियां / बशीर
		पार्षद	12	बारह	शहनाज / जलील
		पार्षद	13	तेरह	वर्षा / पुष्पेन्द्र
		पार्षद	14	चौदह	नीतू / प्रवीण गोस्वामी
		पार्षद	15	पन्द्रह	सीता / नंद किशोर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-62.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, शाहपुर जिला-सागर.	अध्यक्ष	-	-	महेन्द्र यादव
		पार्षद	1	एक	कुसुमरानी
		पार्षद	2	दो	कविता
		पार्षद	3	तीन	नीरज S/o श्री लीलाधर चौरसिया
		पार्षद	4	चार	पंचम पटेल % श्री गणेश प्रसाद पटेल
		पार्षद	5	पांच	शहनाज बी / आसिफ खान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	6	छः	श्री रतनलाल अहिरवार
		पार्षद	7	सात	यशोदा शिवराम अहिरवार
		पार्षद	8	आठ	स्नेहलता चमनसिंह भण्डारी
		पार्षद	9	नौ	सुमतरानी / रामदास
		पार्षद	10	दस	अजमेर सिंह उर्फ देवी सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	विजेन्द्रसिंह / श्री राजाराम सिंह
		पार्षद	12	बारह	खुशी / अमित दुबे
		पार्षद	13	तेरह	शिवराम / सरमन
		पार्षद	14	चौदह	संतोषरानी / लल्लू गौड़
		पार्षद	15	पन्द्रह	रामसिंह / मिट्टूसिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-63.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, गुना जिला-गुना	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती त्रिवेणी डॉ. निर्मल सोनी
		पार्षद	1	एक	सरस्वती बाई
		पार्षद	2	दो	ब्रजेश नामदेव
		पार्षद	3	तीन	इन्द्रा बलवीरसिंह रघुवंशी
		पार्षद	4	चार	महाराज सिंह लोधा
		पार्षद	5	पांच	फूल सिंह कुशवाह
		पार्षद	6	छः	सुशीला जगदीश कुशवाह
		पार्षद	7	सात	मुन्नीबाई अशोक कुशवाह
		पार्षद	8	आठ	रामवली ओझा
		पार्षद	9	नौ	नरेन्द्र राठौर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	गोपाल साहू
		पार्षद	11	ग्यारह	संध्या अशोक सोनी
		पार्षद	12	बारह	अनिल जैन 'रूप श्री'
		पार्षद	13	तेरह	वानो बाई अतीक राईन
		पार्षद	14	चौदह	हर्ष मेर
		पार्षद	15	पन्द्रह	सतीश रावत (चाचा)
		पार्षद	16	सोलह	श्रेयांश जैन
		पार्षद	17	सत्रह	कीर्ती सरवैया
		पार्षद	18	अठारह	नाज खालिद बंटी
		पार्षद	19	उन्नीस	डॉ. कल्याण सिंह लोधा
		पार्षद	20	बीस	श्रीमती विमलेश राजू वना
		पार्षद	21	इक्कीस	आशा कैलाश धाकड़
		पार्षद	22	बाईस	शशि मातादीन
		पार्षद	23	तेईस	श्रीमती नागकन्या पारधी
		पार्षद	24	चौबीस	दिनेश कोरी
		पार्षद	25	पच्चीस	गोपीलाल चिद्वार
		पार्षद	26	छब्बीस	अलताफ अहमद पुत्र श्री नवी अहमद
		पार्षद	27	सत्ताईस	रविन्द्र सिंह रघुवंशी (टिल्लू)
		पार्षद	28	अट्ठाईस	सीतादेवी पत्नि श्री अर्जुनसिंह रघुवंशी
		पार्षद	29	उन्तीस	श्रीमती मांगीबाई उर्फ ममता तोमर पत्नि भैरोलाल.
		पार्षद	30	तीस	धीरज सिंह कुशवाह
		पार्षद	31	इकतीस	"श्रीमती रामकुंवरबाई भील"
		पार्षद	32	बत्तीस	पुष्पा नरेन्द्र कुशवाह
		पार्षद	33	तैंतीस	मृदुल शर्मा (गुड्डू महाराज)
		पार्षद	34	चौंतीस	जरीना मंसूरी
		पार्षद	35	पैंतीस	श्रीमती मुन्नीबाई गोपाल कृष्ण खटीक
		पार्षद	36	छत्तीस	कल्पना बीटू रघुवंशी
		पार्षद	37	सैंतीस	ग्यारसी बाई लोधा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-64.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, आरोन जिला-गुना.	अध्यक्ष	-	-	रेखा संजीव सोनी
		पार्षद	1	एक	मोहनसिंह-कन्हैयाराम काछी
		पार्षद	2	दो	शीलावाई-सुरेश
		पार्षद	3	तीन	ओमप्रकाश सिंह-रघुराजसिंह
		पार्षद	4	चार	मोहनप्रसाद-गजानंद
		पार्षद	5	पांच	अभिलाषा-देशराज
		पार्षद	6	छः	उर्मिला बाई-उमकार पुरी
		पार्षद	7	सात	सुमन बाई-अर्जुनसिंह
		पार्षद	8	आठ	कृष्णसिंह-गजराज सिंह
		पार्षद	9	नौ	बट्टूलाल-दीवानसिंह
		पार्षद	10	दस	खुर्रम-जहांगीर
		पार्षद	11	ग्यारह	नीलू-राजीवसिंह
		पार्षद	12	बारह	सरोज-हरलाल
		पार्षद	13	तेरह	ममता-रामबाबू
		पार्षद	14	चौदह	अयुदीबाई-नथियाबाई
		पार्षद	15	पन्द्रह	मोहनबाई-हरिनारायण सिलावट

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन्)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-65.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कुंभराज जिला-गुना.	अध्यक्ष	-	-	श्री बृजमोहन मैथिल
		पार्षद	1	एक	कान्तीबाई/रामविलास अहिरवार
		पार्षद	2	दो	जरीनाबानो
		पार्षद	3	तीन	सीताबाई मुरारीलाल
		पार्षद	4	चार	निर्मला रामदास सिंह राजपूत
		पार्षद	5	पांच	मीरादेवी
		पार्षद	6	छः	कुसुमबाई शर्मा
		पार्षद	7	सात	गीताबाई मीना
		पार्षद	8	आठ	मुकेश कुमार भील
		पार्षद	9	नौ	पिंकी जैन रमेश (रम्मू)
		पार्षद	10	दस	श्रीलाल गुर्जर
		पार्षद	11	ग्यारह	रामहेत मीना
		पार्षद	12	बारह	रमेश गिर गोस्वामी
		पार्षद	13	तेरह	भगवान दास माहेश्वरी
		पार्षद	14	चौदह	भारतसिंह गुर्जर
		पार्षद	15	पन्द्रह	छगनलाल किशन लाल खटीक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-66.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, चांचौड़ा-बीनागंज जिला-गुना.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती सुनीतादेवी नाटानी पति प्रदीप कुमार नाटानी
		पार्षद	1	एक	श्री रिपुदमनसिंह
		पार्षद	2	दो	श्री दीवानसिंह पिता रणवीरसिंह
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती गुलाब बाई पति गुलाबचंद
		पार्षद	4	चार	श्रीमती गीताबाई पति रमेशचन्द्र माली
		पार्षद	5	पांच	श्री अली हुसैन गौरी
		पार्षद	6	छः	श्री मनीष यादव
		पार्षद	7	सात	श्रीमती मीनादेवी वर्मा पति कृष्णपाल वर्मा
		पार्षद	8	आठ	श्री ओमप्रकाश चौकसे
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती मीराबाई पति नाथूलाल खटीक
		पार्षद	10	दस	श्रीमती मुन्नीबाई पति सुरेश प्रजापति
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री दौलतराम पिता प्यारेलाल
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती शुखियाबाई पति फूसालाल
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती गायत्री सोनी पति जिनेश सोनी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती निर्मला पति राजू अग्रवाल
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री गणेशराम जकेले

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-67.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, शिवपुरी, जिला-शिवपुरी.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रिशिका अनुराग-अष्टाना
		पार्षद	1	एक	सावित्री बाई
		पार्षद	2	दो	नीलू विपिन शुक्ला (मामी)
		पार्षद	3	तीन	सरोज भार्गव
		पार्षद	4	चार	
		पार्षद	5	पांच	वन्दना राजेन्द्र शिवहरे
		पार्षद	6	छः	मनीश (मन्जू)
		पार्षद	7	सात	यशोदा शर्मा
		पार्षद	8	आठ	रेणु जैन
		पार्षद	9	नौ	रहीस खां उर्फ बबलू
		पार्षद	10	दस	दीपशिखा प्रदीप शर्मा
		पार्षद	11	ग्यारह	पीताम्बरा सिंह (ए.पी.एस.)
		पार्षद	12	बारह	रत्नेश जैन "डिम्पल" पत्ते वाले
		पार्षद	13	तेरह	हरीसिंह कुशवाह
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती शशीकला यादव
		पार्षद	15	पन्द्रह	मीना
		पार्षद	16	सौलह	गोविन्द सिंह
		पार्षद	17	सत्रह	बबीता शर्मा
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती विद्यादेवी गुर्जर
		पार्षद	19	उन्नीस	विनीत सिंह गुर्जर "रामू"
		पार्षद	20	बीस	राम सिंह यादव
		पार्षद	21	इक्कीस	रघुराज सिंह "राजू गुर्जर"
		पार्षद	22	बाईस	इन्दिरा बाई राठौर
		पार्षद	23	तेईस	सुल्ताना बेगम
		पार्षद	24	चौबीस	बलवीर सिंह यादव "बल्लू"
		पार्षद	25	पच्चीस	नीरज बेडिया
		पार्षद	26	छब्बीस	श्रीमति रामेश्वरी कुशवाह
		पार्षद	27	सत्ताईस	अनीता अजय भार्गव
		पार्षद	28	अट्ठाईस	शकुन्ताला सुजान भदौरिया
		पार्षद	29	उन्तीस	मीना मुकेश बाथम
		पार्षद	30	तीस	आजाद खॉ उर्फ अज्जू भैया
		पार्षद	31	इकतीस	पंकज शर्मा (महाराज)
		पार्षद	32	बत्तीस	वैजन्ती शाक्य
		पार्षद	33	तैंतीस	वीरेन्द्र शिवहरे
		पार्षद	34	चौतीस	भानुप्रकाश दुबे
		पार्षद	35	पैंतीस	मथुरा प्रसाद प्रजापति

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	36	छत्तीस	रामबाई खटीक
		पार्षद	37	सैंतीस	रघुवीर कुशवाह (लशकरी)
		पार्षद	38	अड़तीस	भोपाल सिंह दांगी
		पार्षद	39	उन्तालीस	सुरेश भोज

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-68.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कोलारस जिला-शिवपुरी:	अध्यक्ष	-	-	निशा शिवहरे
		पार्षद	1	एक	गायत्री बाई
		पार्षद	2	दो	श्रीमती ममता मंगल कुशवाह
		पार्षद	3	तीन	राधाबाई धानुक
		पार्षद	4	चार	सत्तार खां कुरैशी
		पार्षद	5	पांच	रामबाबू निवोरिया
		पार्षद	6	छः	श्रीमती निशादबेगम/मुहोम्मद सोहिल
		पार्षद	7	सात	श्रीमती सुधा नामदेव
		पार्षद	8	आठ	देशपाल राजावत
		पार्षद	9	नौ	पुन्नालाल पुत्र गोकलिया
		पार्षद	10	दस	रविन्द्रसिंह जादौन पुत्र अमरसिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती सुलोचना गौड़
		पार्षद	12	बारह	वसंती बाई
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती शान्ति बाई पत्नि मांगीलाल सेन
		पार्षद	14	चौदह	महावीर सेठ
		पार्षद	15	पन्द्रह	फूलसिंह ददा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-69.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बदरवास जिला-शिवपुरी.	अध्यक्ष	-	-	श्री बद्रीप्रसाद परिहार
		पार्षद	1	एक	दिलीप कुमार चौधरी
		पार्षद	2	दो	दशरथ सिंह परिहार
		पार्षद	3	तीन	भूपेन्द्र सिंह यादव (भोले)
		पार्षद	4	चार	श्रीमती अनीसा बेगम
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती प्रमिला ग्वाल
		पार्षद	6	छः	श्रीमती पुष्पाबाई
		पार्षद	7	सात	बैकुण्ठी बाई
		पार्षद	8	आठ	कमलेश ग्वाल
		पार्षद	9	नौ	राधेश्याम बंसल
		पार्षद	10	दस	नन्लाल सोनी
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती लीलाबाई यादव
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती मिथलेश यादव
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती कृष्णा जैन
		पार्षद	14	चौदह	मुन्नीबाई कुशवाह
		पार्षद	15	पन्द्रह	कृष्ण गोपाल शर्मा उर्फ सुनील

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-70.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-करैरा जिला-शिवपुरी.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रजनी साहू पत्नि कोमल प्रसाद.
		पार्षद	1	एक	अजुध्याबाई/रामरतन कुशवाह
		पार्षद	2	दो	मालतीबाई
		पार्षद	3	तीन	श्री वृजकिशोर तिवारी "पप्पू"
		पार्षद	4	चार	उर्मिला
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती रामकुमारी पत्नि पन्नालाल योगी
		पार्षद	6	छः	श्रीमती पुष्पादेवी सोनी पत्नि श्री द्वारिकाप्रसाद सोनी
		पार्षद	7	सात	श्री मुस्ताक उर्फ तउज पुत्र शकूर खां
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती मीना बेगम पत्नि श्री मोहम्मद खां
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती विमला देवी जाटव पत्नि भोगीराम
		पार्षद	10	दस	नन्हे खॉ पुत्र श्री बन्ने खां
		पार्षद	11	ग्यारह	नरेशकुमार गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता
		पार्षद	12	बारह	श्री महावीर पुत्र श्री चम्पालाल
		पार्षद	13	तेरह	श्री रामदास पुत्र आनंदीलाल जाटव
		पार्षद	14	चौदह	श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री बलवन्त यादव
पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती अनीता पत्नी प्रकाश खटीक		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-71.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वाई क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-पिछोर जिला-शिवपुरी.	अध्यक्ष	-	-	विकास पाठक
		पार्षद	1	एक	राकेश पाठक
		पार्षद	2	दो	महेश कुमार
		पार्षद	3	तीन	कृष्णकांत उर्फ बल्लू
		पार्षद	4	चार	अन्जूमनिशा (रहीश)
		पार्षद	5	पांच	हरिकृष्ण शर्मा/बद्रीप्रसाद शर्मा
		पार्षद	6	छः	पूनम सोनी
		पार्षद	7	सात	लीलावती शर्मा
		पार्षद	8	आठ	अवधकिशोरी राजौरिया
		पार्षद	9	नौ	पूनम राजौरिया
		पार्षद	10	दस	लक्ष्मीदेवी व्यास
		पार्षद	11	ग्यारह	ज्योती सेन
		पार्षद	12	बारह	साविर शाह (पप्पू)
		पार्षद	13	तेरह	वीरन आदिवासी
		पार्षद	14	चौदह	ललिता कोली
		पार्षद	15	पन्द्रह	रामकुमार रहोरा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-72.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-खनियाधाना जिला-शिवपुरी.	अध्यक्ष	-	-	अनीता जगदीश साहू
		पार्षद	1	एक	श्रीमती मीना पत्नि जितेन्द्र पुरोहित
		पार्षद	2	दो	श्रीमती किरन परिहार
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती राजाबेटी पत्नि इन्द्रसिंह यादव
		पार्षद	4	चार	श्रीमती शिवकुमारी, उमेश लाक्षाकार
		पार्षद	5	पांच	संदीप सिंह चौहान
		पार्षद	6	छः	सुरेन्द्र कुमार जैन (कोठादार)
		पार्षद	7	सात	श्री शीतल प्रसाद कुशवाह
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती रेखा जैन
		पार्षद	9	नौ	सत्यप्रकाश बंशकार (छुट्टन) पुत्र रामकिशोर बंशकार
		पार्षद	10	दस	श्रीमती उमा सोनी पत्नि अजित कुमार सोनी उर्फ (कन्चू)
		पार्षद	11	ग्यारह	नजमा मो. सलीम
		पार्षद	12	बारह	सज्जाद अली
		पार्षद	13	तेरह	मो. यून्स, मो. अली
		पार्षद	14	चौदह	डॉ. रितू जैन
		पार्षद	15	पन्द्रह	अभय कुमार जैन वैद्य (एडवोकेट)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-73.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-शाहपुर जिला-बुरहानपुर.	अध्यक्ष	-	-	रामभाऊ सोनवणे
		पार्षद	1	एक	नन्दाबाई भागवत किरोचे
		पार्षद	2	दो	संगीता गोकुल अवसरमल
		पार्षद	3	तीन	वासुदेव जीवराम महाजन
		पार्षद	4	चार	लक्ष्मण वामनराव टेंमुर्णे
		पार्षद	5	पांच	मंजूर खां मेहबुबखां
		पार्षद	6	छः	प्रमिलाबाई विनोद चौधरी
		पार्षद	7	सात	दिपाली कैलास असेरकर
		पार्षद	8	आठ	अशोक रामचन्द्र बारी
		पार्षद	9	नौ	ज्योत्सना अरूण चौधरी
		पार्षद	10	दस	विलास रामभाऊ राऊत (कोचुरकर)
		पार्षद	11	ग्यारह	बारकु जवरसिंह बारेला
		पार्षद	12	बारह	जोत्सना विष्णु महाजन
		पार्षद	13	तेरह	तायरा बी सैय्यद भुरा
		पार्षद	14	चौदह	मीराबाई अर्जून माली
		पार्षद	15	पन्द्रह	योगेश्वर शालिक कोली

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-74.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, श्योपुर जिला-श्योपुर.	अध्यक्ष	-	-	मीरा रमेश गर्ग
		पार्षद	1	एक	नसीम बानो
		पार्षद	2	दो	शेरू धुलिया
		पार्षद	3	तीन	प्रदीप कपा ठाकुर
		पार्षद	4	चार	शैली अनिल गुप्ता
		पार्षद	5	पांच	लक्ष्मण प्रसाद मंगल
		पार्षद	6	छः	मालती देवी विष्णु पाराशर
		पार्षद	7	सात	अनवर बालापूरी
		पार्षद	8	आठ	राजेन्द्र सोनी
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती राधा सिकरवार
		पार्षद	10	दस	राजेन्द्र कुमार (राजू मीणा)
		पार्षद	11	ग्यारह	जानकी पत्नि रामप्रसाद
		पार्षद	12	बारह	रामरतन आदिवासी
		पार्षद	13	तेरह	सत्यनारायण राठौर
		पार्षद	14	चौदह	बबली सोनी
		पार्षद	15	पन्द्रह	दीपचन्द रेगर
		पार्षद	16	सौलह	अख्तरी बेगम पत्नि नसरुद्दीन
		पार्षद	17	सत्रह	रमेश चंद सोनी
		पार्षद	18	अठारह	संजय कुमार महाना
		पार्षद	19	उन्नीस	सहनाज बानो पत्नि मोहमद अहमद
		पार्षद	20	बीस	फरकुन बानो
		पार्षद	21	इक्कीस	बदरूननिसा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-75.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बड़ौदा जिला-श्यापुर.	अध्यक्ष	-	-	डॉ. गोपाल आचार्य
		पार्षद	1	एक	रमेश सुमन
		पार्षद	2	दो	विमला नागर
		पार्षद	3	तीन	विमला बाथम
		पार्षद	4	चार	रमेश चंक्रवति
		पार्षद	5	पांच	कोमल दीपकराज
		पार्षद	6	छः	निर्मल गुर्जर
		पार्षद	7	सात	पुरूषोत्तम गोस्वामी
		पार्षद	8	आठ	मिथिलेश शर्मा
		पार्षद	9	नौ	मनोज विजयवर्गीय
		पार्षद	10	दस	नर्मदा बाई
		पार्षद	11	ग्यारह	कैलाशी बाई
		पार्षद	12	बारह	जगदीश आर्य
		पार्षद	13	तेरह	जगदीश सुमन
		पार्षद	14	चौदह	श्री तेजराम आदिवासी
		पार्षद	15	पन्द्रह	कदीरन बानो

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-76.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, विजयपुर, जिला-श्यापुर.	अध्यक्ष	-	-	वेद प्रकाश चौधरी
		पार्षद	1	एक	श्रीमती रामरती रामभजन जाटव
		पार्षद	2	दो	श्री ब्रजेश कुमार भारद्वाज
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती सुशीला पत्नि विश्राम
		पार्षद	4	चार	श्री शकूरखां पुत्र गफूरखां
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती सरोज पत्नि ईश्वरलाल राठौर
		पार्षद	6	छः	श्री शिवचरण कुशवाह
		पार्षद	7	सात	श्री चिरोंजी जाटव
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती रजनी सत्यनारायण मंगल
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती सीमा पत्नि मोहन शर्मा
		पार्षद	10	दस	श्रीमती सरोज पत्नि गिरीश सोनी
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री मुन्नालाल अंकल
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती कामना पत्नि बलवीरसिंह जादौन
		पार्षद	13	तेरह	श्री पवन सोनी
		पार्षद	14	चौदह	श्री लक्ष्मणसिंह कुशवाह
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती हलुकी पत्नि हेमराज कुशवाह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-77.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	श्री कन्हैराम रघुवंशी
		पार्षद	1	एक	श्रीमती दीपिका सल्लामे
		पार्षद	2	दो	भारती दशरथ साहू
		पार्षद	3	तीन	शबनम रफीक (भूरा भाई)
		पार्षद	4	चार	मनीष तिवारी (रिंकु)
		पार्षद	5	पांच	श्री दिनेश यादव (दिनसू)
		पार्षद	6	छः	प्रीति अजय बिसेन
		पार्षद	7	सात	श्रीमती विनिता शैलेन्द्र बघेल
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती अनीता रामकिशन पहाड़े
		पार्षद	9	नौ	संगीता नारायण उईके
		पार्षद	10	दस	श्रीमति मंगला रजनी राजू साहू
		पार्षद	11	ग्यारह	जसपाल सिंह (रिंकु)
		पार्षद	12	बारह	विकास राय पिता सुरेन्द्र सिंह राय
		पार्षद	13	तेरह	नौशाद उद्दीन
		पार्षद	14	चौदह	धर्मेन्द्र किसनलाल मिगलानी (दीपू)
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति वर्षिका/संजय अग्रवाल
		पार्षद	16	सौलह	अभिलाष गोहेर
		पार्षद	17	सत्रह	उषा शंकर राउत
		पार्षद	18	अठारह	शंकर बरमैया
		पार्षद	19	उन्नीस	जया वाईफ आफ रतन सिंह उर्फ लड्डु सिंह पटेल.
		पार्षद	20	बीस	मीना आलोक साहू
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमति किरण हरिओम सोनी
		पार्षद	22	बाईस	पंकज हीरेन्द्र शुक्ला
		पार्षद	23	तेईस	श्रीमति चन्दा साहू पति पुरुषोत्तम (उत्तम साहू)
		पार्षद	24	चौबीस	श्रीमति सरिता मनोज चौरे
		पार्षद	25	पच्चीस	किशोर कपाले
		पार्षद	26	छब्बीस	हेमा रत्नाकर अवारे
		पार्षद	27	सत्ताईस	प्रशान्त नन्दनवार
		पार्षद	28	अट्ठाईस	शरद टोपीवाला
		पार्षद	29	उन्तीस	विजय पांडे (बिज्जू)
		पार्षद	30	तीस	सुनील युवनाती
		पार्षद	31	इकतीस	मिलिन्द खुटाटे
		पार्षद	32	बत्तीस	संतोष राय
		पार्षद	33	तैंतीस	श्रीमति किरण श्रीवास्तव (चाची)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	34	चौतीस	राजेश भोयर
		पार्षद	35	पैंतीस	श्रीमति सुनीता यादव
		पार्षद	36	छतीस	अनीता दिनेश मालवीय
		पार्षद	37	सैंतीस	ज्याफत मो. उर्फ बाबा कुरेशी
		पार्षद	38	अड़तीस	सुरेश केवलारिया (चुन्नी)
		पार्षद	39	उन्तालीस	हेमा क्षेत्री

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-78.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती सुनीता किशोर चौरसिया
		पार्षद	1	एक	अनिता जगदीश जैन
		पार्षद	2	दो	नीलू शशिकांत निर्मलकर
		पार्षद	3	तीन	संजय सुकांत जैन युवराज जैन
		पार्षद	4	चार	“सुरेन्द्र सोनी”
		पार्षद	5	पांच	सरोज जैन
		पार्षद	6	छः	आबदा बानो मतीन बाबू जी
		पार्षद	7	सात	देवशंकर उइके पिता झनकलाल उइके
		पार्षद	8	आठ	महेश चौधरी
		पार्षद	9	नौ	“अनुसुईया सोनी”
		पार्षद	10	दस	भगवत प्र. चौबे
		पार्षद	11	ग्यारह	ममता पटेल पति दारासिंह पटेल
		पार्षद	12	बारह	“अवनीश सोनी”
		पार्षद	13	तेरह	सरविन्द पाण्डे
		पार्षद	14	चौदह	जितेन्द्र चोरे “बब्बी”
		पार्षद	15	पन्द्रह	अशोक कुमारी वर्मा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-79.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पिपलानारायणवार, जिला-छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	अनिता अशोक चौधरी
		पार्षद	1	एक	देवेन्द्र पांडुरंग गुहे
		पार्षद	2	दो	सौ. कंचन अरुण चटकवार
		पार्षद	3	तीन	गंगाधर रामा गजभिये
		पार्षद	4	चार	सौ. मंजूला निलकंठ लाडसे
		पार्षद	5	पांच	ओंकार रामचंद्र मेहकारकर
		पार्षद	6	छः	विनोद बाबा चौधरी
		पार्षद	7	सात	अरुण लव्हाले
		पार्षद	8	आठ	सौ. पंचफुला रमेश नरवाते
		पार्षद	9	नौ	याकुब गुलाब बक्षवी
		पार्षद	10	दस	मनिषा किसना ठाकरे
		पार्षद	11	ग्यारह	सौ. स्मीता राजेश दरबारे
		पार्षद	12	बारह	राजेश भारोलराव ठाकरे
		पार्षद	13	तेरह	साधना अनिल जैस्वाल
		पार्षद	14	चौदह	संध्या कैलास माकोडे
		पार्षद	15	पन्द्रह	विनोद सालबरडे

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-80.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बड़कुही, जिला-छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	पुर्णिमा बेले
		पार्षद	1	एक	श्रीमति माया डेहरिया
		पार्षद	2	दो	हरिप्रसाद (गुड्डा)
		पार्षद	3	तीन	श्री योगेश राव (अमूल राव)
		पार्षद	4	चार	श्री दत्तराज गजभिये
		पार्षद	5	पांच	शाहिदा बी
		पार्षद	6	छः	विमला इवनाती
		पार्षद	7	सात	सरोज रविन्द्र कुमार
		पार्षद	8	आठ	फूलचंद कठौते
		पार्षद	9	नौ	सिन्धुलता सुरजीत सिंह
		पार्षद	10	दस	गोपाल राव सांबारे (भाउ)
		पार्षद	11	ग्यारह	रेखा कोल्हे
		पार्षद	12	बारह	अर्पणा हेमन्त कुमार राय
		पार्षद	13	तेरह	मन्जू खान
		पार्षद	14	चौदह	मुरलीधर ठाकरे
		पार्षद	15	पन्द्रह	संजय राय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-81.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती नवीता विनोद चौरसिया
		पार्षद	1	एक	श्री देवीलाल पदम सिंह पटेल
		पार्षद	2	दो	श्रीमती रामकुमारी सोनी
		पार्षद	3	तीन	श्री प्रकाश ठाकुर
		पार्षद	4	चार	श्रीमती संतोषी वंशकार
		पार्षद	5	पांच	श्री राजकुमार
		पार्षद	6	छः	श्री अभिषेक अजीत कुमार जैन
		पार्षद	7	सात	श्री नवीन जैन
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती विमला देवी जैन
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती ब्रज कुमारी गनाराम वर्मा
		पार्षद	10	दस	श्रीमती राधा सरजू पटेल
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री द्वाराका प्रसाद डेहरिया
		पार्षद	12	बारह	श्री मुकेश यादव
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती अनीता वर्मा
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती आशा रामगोपाल विश्वकर्मा
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री अन्नीलाल उर्फ महेन्द्र चौरसिया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-82.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसारण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत चांदामेटा बुटारिया, जिला-छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती संगीता विनोद सोनी
		पार्षद	1	एक	दिनेश कुमार उइके
		पार्षद	2	दो	ब्रजकुमारी सरेयाम
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती शशि जुगल विश्वकर्मा
		पार्षद	4	चार	राजू पटेल
		पार्षद	5	पांच	यमुना प्रसाद
		पार्षद	6	छः	पुष्पा शिव यादव
		पार्षद	7	सात	सीमान्त पुरिया
		पार्षद	8	आठ	हरिशचन्द्र अग्रवाल
		पार्षद	9	नौ	सरस्वती बुनकर
		पार्षद	10	दस	आशा गंगाराम बावरिया
		पार्षद	11	ग्यारह	अमजद खान
		पार्षद	12	बारह	जमालुद्दीन "कल्लू भाई"
		पार्षद	13	तेरह	सरोज यदुवंशी
		पार्षद	14	चौदह	नजमा बानों
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती रुपा सुभाष ठाकुर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-83.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, न्यूटनचिखली, जिला-छिन्दवाड़ा	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह	श्री राजेश डेहरिया सुषमा पति धनश्याम अनिल मरकाम सायरा अहमद रेखा पति रमेश साहू महेन्द्र लाला लीना जावरकर पति अजय जावरकर कृष्ण कुमार वर्मा नीरज बाथरी जया उइके सुरेश जावरकर भाऊ श्री हेमन्त राय कैसर मजीद खान संगीता राजेन्द्र शांतीबाई पति पूनाराम पाल सन्तलाल यादव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-84.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, लोधीखेडा, जिला-छिन्दवाड़ा	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	श्रीमती शेवंती पति लीलाधर बांगडे श्रीमती किरण सुधाकर कोलते

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	श्री नंदकुमार राय
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती पुष्पा राजु चौव्हाण
		पार्षद	4	चार	नुरबी शाह ताज मोहम्मद शाह
		पार्षद	5	पांच	श्री रुपेश यादोराव बागडे
		पार्षद	6	छः	श्री होमदेव कृष्णाजी वंजारकर
		पार्षद	7	सात	श्रीमती पिकी उर्फ त्रिवेणी दिपक भगत
		पार्षद	8	आठ	श्री मेघराज रामभाऊजी ढोबले
		पार्षद	9	नौ	डॉ. अनुपकुमार जवाहरलाल जैन
		पार्षद	10	दस	श्रीमती ममता माणिक कोल्हटकर
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती मनिषा राजेश हेडाऊ
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती शारदा राजेन्द्र भुरसे
		पार्षद	13	तेरह	श्री माधोराव पिता नारायण धानोरकर
		पार्षद	14	चौदह	श्री प्रेमराज बाबुराव भागवत
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री कैलाश यादोवराव खोडनकार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-85.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद, परासिया जिला-छिन्दवाड़ा	अध्यक्ष	-	-	गोविन्द राय
		पार्षद	1	एक	रामसेवक उइके
		पार्षद	2	दो	सीमा मुखर्जी
		पार्षद	3	तीन	शमीम बानो
		पार्षद	4	चार	नजमा बेगम
		पार्षद	5	पांच	श्वेता दास गुप्ता
		पार्षद	6	छः	लक्ष्मी इवनाती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	7	सात	कचराबाई
		पार्षद	8	आठ	मो. असद खान
		पार्षद	9	नौ	शशिकला जायसवाल
		पार्षद	10	दस	दर्शन असेरा
		पार्षद	11	ग्यारह	गीता यादव
		पार्षद	12	बारह	प्रमीला रघुवंशी
		पार्षद	13	तेरह	अगरचंद सेठिया
		पार्षद	14	चौदह	मोहम्मद शब्बीर
		पार्षद	15	पन्द्रह	सुशेखर डेहरिया पिता भाऊराव डेहरिया
		पार्षद	16	सोलह	पूनम कैथवास पति अशोक
		पार्षद	17	सत्रह	राजेन्द्र नागले S/o स्व. श्री मारोती नागले
		पार्षद	18	अठारह	नाजिम जागीरदार
		पार्षद	19	उन्नीस	सरोज डेहरिया
		पार्षद	20	बीस	रोहित कैथवास
		पार्षद	21	इक्कीस	विनोद मालवीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-86.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद, शुजालपुर, जिला-शाजापुर	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रचना नीरज जैन
		पार्षद	1	एक	श्रीमती गायत्री सिसोदिया
		पार्षद	2	दो	श्रीमती रीना जीवनसिंह राणा
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती कमली मनोहर जाटव
		पार्षद	4	चार	शहाना बी शरीफ खॉं
		पार्षद	5	पांच	श्री हयातगुल पठान
		पार्षद	6	छः	श्री उदय सिसोदिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	7	सात	श्री अजीत सिंह राणा
		पार्षद	8	आठ	श्री शंकरलाल बागरी
		पार्षद	9	नौ	श्री महेश परमार
		पार्षद	10	दस	श्री मुस्तकीम-मेव
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती अंतिमा-पं. संजय शर्मा
		पार्षद	12	बारह	श्री कैलाश सोनानिया "पत्रकार"
		पार्षद	13	तेरह	श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती अग्रवाल शारदा अनिल
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती अग्रवाल लीला नेमीचन्द
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती सुनीता विनोद शर्मा (पंडित जी)
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती वीणा प्रमोद शिवपुरिया
		पार्षद	18	अठारह	श्री महेन्द्र नाहर
		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमती अनुराधा शर्मा
		पार्षद	20	बीस	श्री भागीरथ मांगीलाल विश्वकर्मा
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती सुशीला प्रहलाद मीणा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-87.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

(1)	(2)	(3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		(6)
			अंकों में	शब्दों में	
1	नगर पंचायत, मक्सी, जिला-शाजापुर	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ	गीताबाई-रामचंद्र पटेल नन्दकिशोर-रामलाल रमेशबाई-मोंगीलाल चुनियाबाई मोड़सिंह लोधी पुष्पा-जुगलकिशोर भावसार उर्मिला-शिवनारायण गुप्ता मरियम-हनीफ खॉ इकबाल-अकबर खॉ भंवरबाई-बद्रीलाल परमार होकम-भवानीसिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	माखनसिंह पाटीदार
		पार्षद	11	ग्यारह	दिलीप (दारा) भावसार
		पार्षद	12	बारह	नरेन्द्र-मोंगीलाल जैन
		पार्षद	13	तेरह	हेमलता-दिलीप लोधी
		पार्षद	14	चौदह	खातुन-सुभान सेठ
		पार्षद	15	पन्द्रह	पुष्पा-दिनेश पाटीदार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-88.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, अकोदिया, जिला-शाजापुर	अध्यक्ष	-	-	दौलतसिंह मंडलोई
		पार्षद	1	एक	रामलाल मालवीय
		पार्षद	2	दो	फूलसिंह ज्ञानसिंह मेवाड़ा
		पार्षद	3	तीन	मगनसिंह प्रेमसिंह मेवाड़ा
		पार्षद	4	चार	अब्दुल सईद श्री समदनूर मंसूरी
		पार्षद	5	पांच	राधादेवी-महेन्द्र नागवंशी
		पार्षद	6	छः	शारदाबाई भगवतसिंह मेवाड़ा
		पार्षद	7	सात	बाबूलाल दांगी
		पार्षद	8	आठ	रीना मनोज कुमार राठी
		पार्षद	9	नौ	नसरिन बी वारिस खां
		पार्षद	10	दस	सुरेन्द्र राठी (बाबा)
		पार्षद	11	ग्यारह	नितेश कुमार कुशलचन्द्र डागा
		पार्षद	12	बारह	नरेन्द्र मेहता
		पार्षद	13	तेरह	अनिल सिंह बरगोती
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर
		पार्षद	15	पन्द्रह	रेखादेवी शिवनारायण खत्री

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-89.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पोलायकलां, जिला-शाजापुर	अध्यक्ष	-	-	लखनलाल चन्द्रवंशी
		पार्षद	1	एक	लीलाबाई हैमराजसिंह
		पार्षद	2	दो	भोपालसिंह तोमर
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती सौदरा बाई दीपचन्द्र
		पार्षद	4	चार	बिंदाबाई बद्रीलाल
		पार्षद	5	पांच	विद्यादेवी चंदरसिंह मण्डलोई
		पार्षद	6	छः	नाथूलाल रावडिया
		पार्षद	7	सात	घनश्याम पटेल
		पार्षद	8	आठ	रेशमबाई नन्दलाल खेलवाल
		पार्षद	9	नौ	लखनलाल मालवीय
		पार्षद	10	दस	लक्ष्मीबाई
		पार्षद	11	ग्यारह	रमेशचन्द्र पिता श्री हरिचरण
		पार्षद	12	बारह	सीमादेवी जितेन्द्र
		पार्षद	13	तेरह	संजय कुमार पिता राधेश्याम
		पार्षद	14	चौदह	क्षिप्रा बाई पति श्री उमरावसिंह चन्द्रवंशी
		पार्षद	15	पन्द्रह	गोरीशंकर पिता मांगीलाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-90.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, आगर, जिला-शाजापुर	अध्यक्ष	-	-	बसंत भाटिया
		पार्षद	1	एक	पप्पु मुल्तानी
		पार्षद	2	दो	सहोदरा नायक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	3	तीन	सुनीता जगदीश गवली
		पार्षद	4	चार	हीराबाला लवकुमार
		पार्षद	5	पांच	हेमन्त कुमार
		पार्षद	6	छः	विजयलक्ष्मी गर्ग
		पार्षद	7	सात	शमीम जावेद आलम
		पार्षद	8	आठ	ज्योति देवेन्द्र वर्मा
		पार्षद	9	नौ	सविता संजय पोरवाल
		पार्षद	10	दस	रमेशचंद्र यादव (लाईटवाला)
		पार्षद	11	ग्यारह	राजू अमरसिंह राजौरिया
		पार्षद	12	बारह	अशोक प्रजापत
		पार्षद	13	तेरह	मुकेश नरवाल
		पार्षद	14	चौदह	नरसिंह मालवीय
		पार्षद	15	पन्द्रह	महेश चौहान
		पार्षद	16	सोलह	अखिलेश अग्रवाल "टिल्लू"
		पार्षद	17	सत्रह	अंजु-अशोक गवली
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती निर्मला सिसोदिया (राजपूत)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-91.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कानड़, जिला-शाजापुर	अध्यक्ष	-	-	सिद्धनाथ रामचरण चौधरी
		पार्षद	1	एक	गौरीशंकर गणपतलाल सूर्यवंशी
		पार्षद	2	दो	विजयलक्ष्मी राजेश माली
		पार्षद	3	तीन	सौरमबाई पीरुलाल
		पार्षद	4	चार	महेन्द्र पालीवाल (पप्पू)
		पार्षद	5	पांच	मायाबाई पति भवंरलाल
		पार्षद	6	छः	अनोखीलाल वर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	7	सात	असलम खां शीसगर (टेलर)
		पार्षद	8	आठ	गोपाल बीजापारी
		पार्षद	9	नौ	रेखाबाई महेश कुमार
		पार्षद	10	दस	रामचन्द्र भगवतीप्रसाद
		पार्षद	11	ग्यारह	सुत्ताना बी मोहम्मद हुसैन
		पार्षद	12	बारह	कविता कालूसिंह बिजापारी
		पार्षद	13	तेरह	दुर्गाबाई पति कैलाशचन्द्र
		पार्षद	14	चौदह	रुखमणी बाई पति भँवरलाल राठौर
		पार्षद	15	पन्द्रह	दरबारासिंह भोनीसिंह आर्य

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-92.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बड़ौद, जिला-शाजापुर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रमेश कुंवर बाई भेरुसिंह परिहार
		पार्षद	1	एक	चंदाबाई-गौरीलाल जैन उर्फ (गौरु)
		पार्षद	2	दो	श्री तुलसीराम सूर्यवंशी
		पार्षद	3	तीन	भावसार सुनीता उपाशंकर
		पार्षद	4	चार	यूसूफ हुसैन-नजर हुसैन बोहरा
		पार्षद	5	पांच	टमाबाई दयाराम
		पार्षद	6	छः	श्रीमती भारतबाई पति नेमीचंद
		पार्षद	7	सात	चांद बी-इकबाल मुल्तानी
		पार्षद	8	आठ	गीताबाई लववंशी
		पार्षद	9	नौ	मुबारिक-शकूर खां
		पार्षद	10	दस	सावराबाई मोहम्मद हुसैन उर्फ नन्ना
		पार्षद	11	ग्यारह	जैबुनबी मोहम्मद हुसैन उर्फ (सुखाभाई)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	12	बारह	सुशीलाबाई पति शांतिलाल "मिस्त्री"
		पार्षद	13	तेरह	अब्दूलहमीद खाजूखां
		पार्षद	14	चौदह	चन्द्रपालसिंह राजपूत
		पार्षद	15	पन्द्रह	आनंदस्वरूप श्रीवास्तव "शेम्पी"

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-93.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सुसनेर, जिला-शाजापुर.	अध्यक्ष	-	-	श्री राणा यशवन्त सिंह
		पार्षद	1	एक	रईस मोहम्मद खान
		पार्षद	2	दो	नरेन्द्रसिंह गेहलोत (गुड्डू)
		पार्षद	3	तीन	शबनम नईम अहमद
		पार्षद	4	चार	रामचंद्र
		पार्षद	5	पांच	दिलीपसिंह पाण्डे
		पार्षद	6	छः	रीना योगेश पाण्डे
		पार्षद	7	सात	रानी अभय जैन
		पार्षद	8	आठ	कल्पना/जितेन्द्र कुमार जैन
		पार्षद	9	नौ	मंजूबाई कमलध्वज
		पार्षद	10	दस	महेश जादमें
		पार्षद	11	ग्यारह	अब्दुल रहमान
		पार्षद	12	बारह	अनीसा बी मंसूरी
		पार्षद	13	तेरह	आशा विष्णु भावसार
		पार्षद	14	चौदह	कामिल खान "लाला"
		पार्षद	15	पन्द्रह	रुकसानाबी सलीम मंसूरी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-94.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सोयतकलाँ, जिला-शाजापुर.	अध्यक्ष	-	-	संगीता-राकेश गुप्ता
		पार्षद	1	एक	राधेश्याम दांगी
		पार्षद	2	दो	धापूबाई-बालचन्द्र
		पार्षद	3	तीन	राधा-दिलीप पायलेट
		पार्षद	4	चार	अंसारी युनुस-शब्बीर अंसारी
		पार्षद	5	पांच	मोहिनीबाई-राधेश्याम
		पार्षद	6	छः	गिरीराज-मोहनलाल
		पार्षद	7	सात	सुमित्राबाई
		पार्षद	8	आठ	गायत्रीबाई-दिनेश भावसार
		पार्षद	9	नौ	अली नफीसा बी
		पार्षद	10	दस	अजनबी राजेश-विश्वनाथ व्यास
		पार्षद	11	ग्यारह	राजेश कुमार जायसवाल "राजा"
		पार्षद	12	बारह	गिरीजाबाई-राजेश कुमार
		पार्षद	13	तेरह	मंजूकुंवर-मेहरबानसिंह चौहान
		पार्षद	14	चौदह	प्रकाशचन्द्र
पार्षद	15	पन्द्रह	प्रेमचन्द्र-बापूलाल कुशवाह		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-95.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, नलखेड़ा, जिला-शाजापुर.	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	श्रीमति चन्द्रकांता प्रेम राठौर शमाबी अ. हमीद खॉन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	श्री मोहनलाल नागर
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती चेतना मोतीलाल गवली
		पार्षद	4	चार	श्रीमति वंदना जायसवाल
		पार्षद	5	पांच	श्रीमति मंजूबाला सुनील पांडिया
		पार्षद	6	छः	श्रीमति गीता गायरी
		पार्षद	7	सात	श्रीमति श्याम कली बंजारा
		पार्षद	8	आठ	श्री इस्लाम अमीनखॉ
		पार्षद	9	नौ	श्री गोवर्धन वेदिया
		पार्षद	10	दस	श्री बाबूलाल मालवीय
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति नसीमबी आशिकखॉ
		पार्षद	12	बाराह	श्रीमति कमलाबाई रघुनाथ राव चौहान
		पार्षद	13	तेरह	श्री लाल चन्द्र
		पार्षद	14	चौदह	श्री जगदिश वल्लभदास शर्मा
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री राधेश्याम मोतीलाल कुंभकार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-96.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			पार्षद		
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)
1	नगर पंचायत, बड़ागांव, जिला-शाजापुर.	अध्यक्ष	-	-	कमला-उदयसिंह यादव
		पार्षद	1	एक	विनोद-बापूलाल सुमन
		पार्षद	2	दो	गुड्डीबाई मानसिंह
		पार्षद	3	तीन	गंगाबाई-रमेशचंद
		पार्षद	4	चार	फुलचन्द-भेरुलाल सुतार
		पार्षद	5	पांच	मोहनबाई-सुंदर यादव
		पार्षद	6	छः	हरिऔम यादव
		पार्षद	7	सात	मानसिंह राजपूत
		पार्षद	8	आठ	उषा दिनेश सोनी
		पार्षद	9	नौ	श्री सुरेश राव
		पार्षद	10	दस	ईश्वरसिंह शांतिलाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	गोकुल चुन्नीलाल
		पार्षद	12	बारह	पद्माबाई गोवर्धन
		पार्षद	13	तेरह	बक्तुबाई निर्भयसिंह
		पार्षद	14	चौदह	द्रोपतीबाई पीरु
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती सौरमबाई पति तंवरसिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-97.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वाई क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, दमोह, जिला-दमोह	अध्यक्ष	-	-	मनु मिश्रा
		पार्षद	1	एक	लीला रमेश राठौर
		पार्षद	2	दो	देवेन्द्रसींग तेकाम
		पार्षद	3	तीन	विजय जैन
		पार्षद	4	चार	आशीष पटैल
		पार्षद	5	पांच	मजीद खान मसीह
		पार्षद	6	छः	सुषमा विक्रम सिंह
		पार्षद	7	सात	किशोरी देवी जगदीशसिंह चंदेल
		पार्षद	8	आठ	गिरजाबाई तुलाराम साहू
		पार्षद	9	नौ	बैजन्ती महेश पटैल
		पार्षद	10	दस	गोविन्द सिंह उर्फ राजा भैया
		पार्षद	11	ग्यारह	सविता नरेश विश्वकर्मा
		पार्षद	12	बारह	प्रेमा देवी भरत गुप्ता
		पार्षद	13	तेरह	दुर्गा यादव
		पार्षद	14	चौदह	उमाशंकर बज्जू
		पार्षद	15	पन्द्रह	मंजू वीरेन्द्रसिंह
		पार्षद	16	सोलह	रूपराम लालचंद जाटव
		पार्षद	17	सत्रह	राकेश नायक कस्तूरचंद नायक
		पार्षद	18	अठारह	शाहीन बेगम इसलाम पठान
		पार्षद	19	उन्नीस	मायामदन चौधरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	20	बीस	गीता बाई जाटव
		पार्षद	21	इक्कीस	पुरूषोत्तम उर्फ परसू भैया सोनी
		पार्षद	22	बाईस	अंजना संजय सेठ
		पार्षद	23	तेईस	वीरू राय
		पार्षद	24	चौबीस	नितिन उर्फ पप्पू मलाई
		पार्षद	25	पच्चीस	क्षमा श्रेयांश लहरी
		पार्षद	26	छब्बीस	संगीता रौतेला
		पार्षद	27	सत्ताईस	बाबू विजय सिंह
		पार्षद	28	अट्ठाईस	रूपेश रजक
		पार्षद	29	उन्तीस	शारदा सिंह अशोक सिंह ठाकुर
		पार्षद	30	तीस	शेख नादिम उर्फ काजू
		पार्षद	31	इकतीस	शहजाद खान
		पार्षद	32	बत्तीस	महजवीन पप्पूसाविर
		पार्षद	33	तैंतीस	सरिता अजय पारोचे
		पार्षद	34	चौंतीस	लक्ष्मी विष्णु रोहित
		पार्षद	35	पैंतीस	हेमराज भैया
		पार्षद	36	छत्तीस	संगीता पति श्याम सिंह
		पार्षद	37	सैंतीस	मु. मुरसलीन कुरैशी
		पार्षद	38	अड़तीस	मुकेश तेजीराम रोहित
		पार्षद	39	उन्तालीस	शरद कुमारी यशपालसिंह ठाकुर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-98.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, हटा, जिला-दमोह	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3	- एक दो तीन	बाबुलाल तंतुवाय शोभारानी मुन्ना अल्का पति श्यामकुमार सरोजरानी अशोक पाराशर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	4	चार	सरोजरानी लखन मोदी
		पार्षद	5	पांच	रश्मि अनिल ताम्रकार
		पार्षद	6	छः	अनंतराम
		पार्षद	7	सात	मनीष जैन
		पार्षद	8	आठ	जुलेखा वी रहीम खां
		पार्षद	9	नौ	महेश पिता धनीराम
		पार्षद	10	दस	सुधारानी रोशन साहू
		पार्षद	11	ग्यारह	मनीष चौरसिया
		पार्षद	12	बारह	क्यू. खान
		पार्षद	13	तेरह	जगन्नाथ पटेल
		पार्षद	14	चौदह	अवधरानी अहरवार
		पार्षद	15	पन्द्रह	अफजल पठान

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-99.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, तेन्दूखेड़ा, जिला-दमोह	अध्यक्ष	-	-	वर्षा रामसिंह
		पार्षद	1	एक	नेहा गणपत केवट
		पार्षद	2	दो	ज्योति जुगल सोनी
		पार्षद	3	तीन	रामकुमार आरल
		पार्षद	4	चार	लक्ष्मीबाई बालाप्रसाद साहू
		पार्षद	5	पांच	उमेश सिंह ठाकुर
		पार्षद	6	छः	हल्के राम बेन
		पार्षद	7	सात	ऋषभ कुमार सिंघई पप्पू
		पार्षद	8	आठ	कमलेश यादव
		पार्षद	9	नौ	उजयारी बाई बेन
		पार्षद	10	दस	सुरेश चंद्र जैन
		पार्षद	11	ग्यारह	इंदू रामकृष्ण मालवीय भैया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	12	बारह	सीमा जैन
		पार्षद	13	तेरह	लक्ष्मीरानी
		पार्षद	14	चौदह	रीता सुरेन्द्र सेन
		पार्षद	15	पन्द्रह	विजय सिंह ठाकुर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-100.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पथरिया, जिला-दमोह	अध्यक्ष	-	-	लक्ष्मणसिंह ठाकुर
		पार्षद	1	एक	कमलारानी मुन्नालाल
		पार्षद	2	दो	रम्मू साहू
		पार्षद	3	तीन	तारा पप्पू राठौर
		पार्षद	4	चार	हल्ले कालूराम साहू
		पार्षद	5	पांच	रुकमन प्रभुदयाल अहिरवार
		पार्षद	6	छः	सारिका जैन
		पार्षद	7	सात	सपना अहिरवार
		पार्षद	8	आठ	राधारानी सिंह
		पार्षद	9	नौ	बृजेश पटैल
		पार्षद	10	दस	ललित पटैल
		पार्षद	11	ग्यारह	वीरेन्द्र दुबे
		पार्षद	12	बारह	रतना मम्मा चौरसिया
		पार्षद	13	तेरह	पीर अली कबाड़ी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीधर अहिरवार
		पार्षद	15	पन्द्रह	गीता पति अनिल तिवारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-101.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, हिण्डोरिया, जिला-दमोह	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह	रामेश्वर ठेकेदार परमलाल गोविन्द प्रसाद पुष्पा/ब्रजेश साहू लक्ष्मी बडे मुन्ना भैया राजकुमारी सिंह अनीसा सुजात पत्रकार सादिक कुरेशी डॉ. कैयूम मिर्जा सायमा कौशर पति बबलू मोदी हल्ली बाई दामोदर पार्वती भानू शिवराम सोनी प्रेमनारयण बबलू साहू पिता किशोरी साहू जगदीश प्रसाद चौरसिया पिता नाथूराम मायारानी रामदास

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-102.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, रामपुरनैकिन, जिला-सीधी	अध्यक्ष पार्षद पार्षद	- 1 2	- एक दो	आनन्द बिहारी मिश्र शान्ती देवी कोल रामशिरोमणि सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	3	तीन	कृष्णावतार मिश्रा
		पार्षद	4	चार	दुर्गावती साकेत
		पार्षद	5	पांच	बुधई साहू
		पार्षद	6	छः	मनरजुआ यादव
		पार्षद	7	सात	सावित्री साहू/रामकुमार साहू
		पार्षद	8	आठ	रामाश्रय चिकवा
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती सुनीता सिंह
		पार्षद	10	दस	राममिलन कोल
		पार्षद	11	ग्यारह	सुभद्रा
		पार्षद	12	बारह	निर्मला सोनी
		पार्षद	13	तेरह	रामलखन गुप्ता
		पार्षद	14	चौदह	झुल्ली बाई साकेत
		पार्षद	15	पन्द्रह	रोहिणी प्रसाद शर्मा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-103.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, दतिया, जिला-दतिया	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती कृष्णा कुशवाहा
		पार्षद	1	एक	बालकिशन कुशवाहा देवसिंह
		पार्षद	2	दो	जगदीश प्रसाद अहिरवार
		पार्षद	3	तीन	जितेन्द्र वाल्मीक
		पार्षद	4	चार	लख्मी चन्द टिलवानी (लख्वा)
		पार्षद	5	पांच	अशरफ खॉं (सल्लू)
		पार्षद	6	छः	दीपक उर्फ दीपू सोनी
		पार्षद	7	सात	प्रतिभा शुक्ला
		पार्षद	8	आठ	कुसुम लता लिटोरिया
		पार्षद	9	नौ	संदीप शर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	सरवरी राजा कुरैशी
		पार्षद	11	ग्यारह	रामबेटी यादव
		पार्षद	12	बारह	सुखदेव बृजेश दुबे
		पार्षद	13	तेरह	नजर अली
		पार्षद	14	चौदह	श्रीराम जैन
		पार्षद	15	पन्द्रह	सावित्री देवी तिवारी पटेल
		पार्षद	16	सोलह	सुधा ओ. पी. साहू
		पार्षद	17	सत्रह	रजनी (योगेश सकसैना)
		पार्षद	18	अठारह	मालती केवल सिंह यादव
		पार्षद	19	उन्नीस	ऊषा नाहर
		पार्षद	20	बीस	विक्रम उर्फ विक्की ठाकुर
		पार्षद	21	इक्कीस	अनीता राम कुमार यादव
		पार्षद	22	बाईस	सरमन सिंह कुशवाहा
		पार्षद	23	तेईस	ममता अहिरवार (गौरी)
		पार्षद	24	चौबीस	ब्रजेन्द्र सिंह बैस
		पार्षद	25	पच्चीस	रामकुमारी मोहन सिंह
		पार्षद	26	छब्बीस	जानकी देवी (भूरे) यादव
		पार्षद	27	सत्ताईस	राजकुमारी राकेश वर्मा
		पार्षद	28	अट्ठाईस	ब्रजेश ढेंगुला
		पार्षद	29	उन्तीस	रक्षा सरौनियां
		पार्षद	30	तीस	सत्येन्द्र सिंह उर्फ दिग्गी राजा
		पार्षद	31	इकतीस	नीलम लक्ष्मण यादव
		पार्षद	32	बत्तीस	रजनी मुकेश यादव
		पार्षद	33	तैंतीस	बलराम सिंह यादव उर्फ बबलू
		पार्षद	34	चौतीस	मीरा कुशवाहा
		पार्षद	35	पैंतीस	अर्जुनदास
		पार्षद	36	छत्तीस	कुन्दन प्रजापति

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-104.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सेवदा, जिला-दतिया	अध्यक्ष पार्षद पार्षद	- 1 2	- एक दो	श्रीमती कमला यादव श्री रमेश यादव श्रीमती सुमन सकसैना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती सुमन दीक्षित
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सगुन अग्रवाल
		पार्षद	5	पांच	श्री रवीन्द्र पुरोहित
		पार्षद	6	छः	श्री विनोद गुप्ता
		पार्षद	7	सात	श्रीमती रूचि यादव
		पार्षद	8	आठ	रमेश बाल्मीक
		पार्षद	9	नौ	श्री बल्ली जमादार
		पार्षद	10	दस	श्री महेन्द्र श्रीवास्तव
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती अनीता यादव
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती फूलवती सुनकर
		पार्षद	13	तेरह	अखलेश कुमार (बल्लू गंधी)
		पार्षद	14	चौदह	श्री पूरनसिंह वाथम
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती आशा नौनेरिया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-105.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, इन्दरगढ़, जिला-दतिया	अध्यक्ष	-	-	जयश्री सुधर सिंह मंयक
		पार्षद	1	एक	राकेश पुरोहित
		पार्षद	2	दो	छोटे खॉ पठान
		पार्षद	3	तीन	श्री राकेश सिंह
		पार्षद	4	चार	सुमन कमलेश सेन
		पार्षद	5	पांच	अनार सिंह उर्फ अन्नू
		पार्षद	6	छः	राघवेन्द्र सिंह जाट
		पार्षद	7	सात	हरगोविन्द जाटव
		पार्षद	8	आठ	जानकी कुशवाह
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती भूरी राजाराम कुशवाह
		पार्षद	10	दस	कमला वच्चीलाल कुशवाह
		पार्षद	11	ग्यारह	बांदांम सिंह कुशवाह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	12	बारह	हेमलता अमर सिंह अहिरवार
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती किशना चौरसिया
		पार्षद	14	चौदह	लक्ष्मी दिलीप यादव
		पार्षद	15	पन्द्रह	बद्रीप्रसाद जाटव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-106.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, भाण्डेर, जिला-दतिया	अध्यक्ष	-	-	मिथिलेश राजेश चौहान
		पार्षद	1	एक	मोहनलाल अहिरवार ठेकेदार
		पार्षद	2	दो	गोविन्दास पाल
		पार्षद	3	तीन	कस्तूरीदेवी
		पार्षद	4	चार	सिरोमणसिंह पांचाल
		पार्षद	5	पांच	ममता प्रवेन्द्र पारासर
		पार्षद	6	छः	श्रीमती सुमन रामप्रकाश (चैनू महाराज)
		पार्षद	7	सात	सुनीता छोटेराय
		पार्षद	8	आठ	सुमन संजीव कुमार साहू
		पार्षद	9	नौ	राकेश कुमार गुप्ता
		पार्षद	10	दस	मुकुटसिंह यादव
		पार्षद	11	ग्यारह	उमेश वर्मा
		पार्षद	12	बारह	पलाहउद्दीन हीरूसिद्धीक
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती संगीता नीटू शर्मा
		पार्षद	14	चौदह	ममता कैलाश कुशवाहा
		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रतिपालसिंह उर्फ सन्ते पटैल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.